

Roll No.

Y – 407 / Y – 408
B.A. (Third Year)
EXAMINATION, March/April 2021
HOME SCIENCE

Paper – I & II

FOOD & NUTRITION / EXTENSION & COMMUNICATION

Time : Three Hours

Maximum Marks : 40+40=80 (For Regular Students)

Minimum Pass Marks : 33%

Maximum Marks : 50+50=100 (For Private Students)

Minimum Pass Marks : 33%

नोट- सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Attempt *all* questions.

खण्ड-अ / (Section-A)

1. भोजन एवं पोषण की परिभाषा लिखिए। ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थों के विषय में लिखिए। 13/16
Define food and nutrition. Write about energy giving foods.
2. प्रोटीन के कार्य, प्राप्ति के साधन एवं दैनिक प्रस्तावित मात्रा लिखिए। 13/17
Write functions, sources and daily recommended allowance of Protein.
3. निम्नलिखित में से किसी एक के कार्य, स्रोत एवं कमी के विषय में समझाइए : 14/17
Explain about functions, sources and daily requirements of any *one* of the following :
(i) लौह लवण
Iron
(ii) सोडियम।
Sodium.

खण्ड-ब / (Section-B)

4. संचार का अर्थ, परिभाषा तथा महत्व समझाइए। 13/16
Write about meaning, definition and importance of communication.
5. संचार प्रक्रिया में सहायक एवं बाधक तत्वों को विस्तार से समझाइए। 13/17
Explain the factors that help and hinder communication process.
6. संचार के मौखिक एवं अमौखिक प्रकार की विस्तार से चर्चा कीजिए। 14/17
Discuss verbal and non-verbal communication in detail.

Y – 407 / Y – 408